

भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 472] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 13, 1968/अग्रहायण 22, 1890

No. 472] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 13, 1968/AGRAHAYANA 22, 1890]

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th December 1968

S.O. 4468.—In exercise of the powers conferred by section 21 and sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951, (43 of 1951) and in supersession of its notification No. 434/PB/66, dated the 7th December, 1966 the Election Commission hereby appoints in respect of each of the Parliamentary Constituencies in the State of Punjab specified in column 1 of the Table below :—

- (a) the officer specified in the corresponding entry in column 2 of the said Table to be the Returning Officer; and
- (b) the officers specified in the corresponding entries in column 3 of the said Table to be the Assistant Returning Officers;

TABLE

S. No. and Name of the Constituency	Returning Officer	Assistant Returning Officer
1	2	3
1. Fazilka	Deputy Commissioner, Ferozepur.	1. General Assistant, Ferozepur. 2. Sub-Divisional Officer, Fazilka. 3. Executive Magistrate I, Fazilka. 4. Sub-Divisional Officer, Muktesar. 5. Sub-Divisional Officer, Faridkot. 6. Revenue Assistant Agrarian Reforms, Ferozepur.

1	2	3
2. Ferozepur	Deputy Commissioner, Ferozepur.	1. Sub-Divisional Officer, Ferozepur. 2. General Assistant, Ferozepur. 3. Executive Magistrate I, Ferozepur. 4. Sub-Divisional Officer, Moga. 5. Executive Magistrate I, Moga. 6. Sub-Divisional Officer, Zira.
3. Tarn Taran	Deputy Commissioner, Amritsar.	1. Sub-Divisional Officer, Amritsar. 2. Sub-Divisional Officer, Ajnala. 3. Sub-Divisional Officer, Patti. 4. Sub-Divisional Officer, Tarn Taran. 5. Civil Defence Officer, Amritsar.
4. Amritsar	Deputy Commissioner, Amritsar.	1. Civil Defence Officer, Amritsar. 2. General Assistant I, Amritsar. 3. General Assistant II, Amritsar. 4. Executive Magistrate I, Amritsar. 5. Sub-Divisional Officer, Ajnala. 6. Sub-Divisional Officer, Batala. 7. Public Grievances Officer, Amritsar.
5. Gurdaspur	Deputy Commissioner, Gurdaspur	1. Sub-Divisional Officer, Gurdaspur. 2. Civil Defence Officer, Gurdaspur. 3. District Transport Officer, Gurdaspur. 4. Sub-Divisional Officer, Pathankot. 5. Sub-Divisional Officer, Dasuya. 6. Executive Magistrate, Batala.
6. Hoshiarpur	Deputy Commissioner, Hoshiarpur.	1. Sub-Divisional Officer, Hoshiarpur. 2. District Development and Panchayat Officer, Hoshiarpur. 3. Sub-Divisional Officer, Garhshankar. 4. Sub-Divisional Officer, Dasuya. 5. Sub-Divisional Officer, Anandpur Sahib. 6. Public Grievances Officer, Hoshiarpur.
7. Jullundur	Deputy Commissioner, Jullundur.	1. Sub-Divisional Officer, Jullundur. 2. District Development and Panchayat Officer, Jullundur. 3. Executive Magistrate I, Jullundur. 4. Sub-Divisional Officer, Nakodar. 5. Sub-Divisional Officer, Kapurthala.
8. Phillaur	Deputy Commissioner, Jullundur.	1. General Assistant, Jullundur. 2. Executive Magistrate I, Jullundur. 3. Sub-Divisional Officer, Phillaur. 4. Sub-Divisional Officer, Nawanshahr. 5. Sub-Divisional Officer, Phagwara. 6. District Development and Panchayat Officer, Hoshiarpur. 7. Sub-Divisional Officer, Nakodar.

1	2	3
9. Ludhiana	Deputy Commissioner, Ludhiana.	1. Sub-Divisional Officer, Ludhiana. 2. Sub-Divisional Officer, Jagraon. 3. Executive Magistrate I, Ludhiana. 4. District Development and Panchayat Officer, Ludhiana.
10. Ropar	Deputy Commissioner, Ropar.	1. Sub-Divisional Officer, Ropar. 2. Public Grievances Officer, Ropar. 3. Sub-Divisional Officer, Kharar. 4. Sub-Divisional Officer, Samrala. 5. Sub-Divisional Officer, Nabha. 6. Sub-Divisional Officer, Fatehgarh Sahib at Bassi.
11. Patiala	Deputy Commissioner, Patiala.	1. Sub-Divisional Officer, Patiala. 2. General Assistant I, Patiala. 3. General Assistant II, Patiala. 4. District Development and Panchayat Officer, Patiala. 5. Sub-Divisional Officer, Rajpura. 6. Sub-Divisional Officer, Sangrur.
12. Sangrur	Deputy Commissioner, Sangrur.	1. Sub-Divisional Officer, Sangrur. 2. Executive Magistrate I, Sangrur. 3. Sub-Divisional Officer, Barnala. 4. Sub-Divisional Officer, Malerkotla. 5. Executive Magistrate I, Bhatinda. 6. Public Grievances Officer, Sangrur.
13. Bhatinda	Deputy Commissioner, Bhatinda.	1. Sub-Divisional Officer, Bhatinda. 2. General Assistant, Bhatinda. 3. Sub-Divisional Officer, Faridkot. 4. Sub-Divisional Officer, Mansa. 5. Executive Magistrate, Mansa.

[No. 434/PB/68.]

By Order,

K. S. RAJAGOPALAN, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 1968

एस० नो० 4469—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 तथा धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अपनी अधिसूचना सं० 434/पंजाब/66, दिनांक 7 दिसम्बर, 1966 को अतिष्ठित करके निर्वाचन आयोग निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पंजाब राज्य में के हर एक संसदीय-निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में —

(क) उक्त सारणी के स्तम्भ 2 में तत्समान प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आफिसर को रिटनिंग आफिसर; तथा

(ख) उक्त सारणी के स्तम्भ 3 में तत्समान प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट आफिसरों को सहायक रिटर्निंग आफिसरों, एतद्वारा नियुक्त करता है :—

सारणी

क्रम संख्या	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	रिटर्निंग आफिसर	सहायक रिटर्निंग आफिसर
1		2	3
1	फाजिल्का	उपायुक्त, फिरोजपुर	1. साधारण सहायक, फिरोजपुर । 2. उपखंड आफिसर, फाजिल्का । 3. कार्यपालक मजिस्ट्रेट I, फाजिल्का । 4. उपखंड आफिसर, मुक्तसर । 5. उपखंड आफिसर, फरीदकोट । 6. राजस्व सहायक, कृषि सुधार, फिरोजपुर ।
2	फिरोजपुर	उपायुक्त, फिरोजपुर	1. उपखंड आफिसर, फिरोजपुर । 2. साधारण सहायक, फिरोजपुर । 3. कार्यपालक मजिस्ट्रेट , फिरोजपुर । 4. उपखंड आफिसर, भोगा । 5. कार्यपालक मजिस्ट्रेट , भोगा । 6. उपखंड आफिसर, जीरा ।
3	तरन तारन	उपायुक्त, अमृतसर	1. उपखंड आफिसर, अमृतसर । 2. उपखंड आफिसर, अजनाला । 3. उपखंड आफिसर, पट्टी । 4. उपखंड आफिसर, तरन तारन । 5. सिविल रक्षा आफिसर, अमृतसर ।
4	अमृतसर	उपायुक्त, अमृतसर	1. सिविल रक्षा आफिसर, अमृतसर । 2. साधारण सहायक I, अमृतसर ।

1

2

3

- | | | |
|---|---|---|
| | | 3. साधारण सहायक II,
अमृतसर । |
| | | 4. कार्यपालक मजिस्ट्रेट I,
अमृतसर । |
| | | 5. उपखंड आफिसर, अजमाला । |
| | | 6. उपखंड आफिसर, बटाला । |
| | | 7. लोक शिकायत आफिसर,
अमृतसर । |
| 5 | गुरदासपुर उपायुक्त, गुरदासपुर | 1. उपखंड आफिसर, गुरदासपुर । |
| | | 2. सिविल रक्षा आफिसर,
गुरदासपुर । |
| | | 3. जिला परिवहन आफिसर,
गुरदासपुर । |
| | | 4. उपखंड आफिसर, पठानकोट । |
| | | 5. उपखंड आफिसर, दसुआ । |
| | | 6. कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बटाला । |
| 6 | होशियारपुर उपायुक्त, होशियारपुर | 1. उपखंड आफिसर, होशियारपुर । |
| | | 2. जिला विकास तथा पंचायत
आफिसर, होशियारपुर । |
| | | 3. उपखंड आफिसर, गढ़शंकर । |
| | | 4. उपखंड आफिसर, वसुआ । |
| | | 5. उपखंड आफिसर, आनन्धपुर
साहिब । |
| | | 6. लोक शिकायत आफिसर,
होशियारपुर । |
| 7 | जालंधर उपायुक्त, जालंधर | 1. उपखंड आफिसर, जालंधर । |
| | | 2. जिला विकास तथा पंचायत
आफिसर, जालंधर । |
| | | 3. कार्यपालक मजिस्ट्रेट I,
जालंधर । |
| | | 4. उपखंड आफिसर, नाकोदर । |
| | | 5. उपखंड आफिसर, कपूरथला । |

1	2	3
8 फिल्लोर	उपायुक्त, जालंधर.	1. साधारण सहायक, जालंधर । 2. कार्यपालक मजिस्ट्रेट , जालंधर । 3. उपखंड आफिसर, फिल्लोर । 4. उपखंड आफिसर, नवांशहर । 5. उपखंड आफिसर, फगवाड़ा । 6. जिला विकास तथा पंचायत आफिसर, होशियारपुर । 7. उपखंड आफिसर, नाकोदर ।
9 लुधियाना	उपायुक्त, लुधियाना	1. उपखंड आफिसर, लुधियाना । 2. उपखंड आफिसर, जगरोव । 3. कार्यपालक मजिस्ट्रेट I, लुधियाना । 4. जिला विकास तथा पंचायत आफिसर, लुधियाना ।
10 रोपड़	उपायुक्त, रोपड़	1. उपखंड आफिसर, रोपड़ 2. लोक शिकायत आफिसर, रोपड़ । 3. उपखंड आफिसर, खरार । 4. उपखंड आफिसर, समरला । 5. उपखंड आफिसर, नाभा । 6. उपखंड आफिसर, फतेहगढ़ साहिब, बस्ती ।
11 पटियाला	उपायुक्त, पटियाला	1. उपखंड आफिसर, पटियाला । 2. साधारण सहायक I, पटियाला । 3. साधारण सहायक II, पटियाला । 4. जिला विकास तथा पंचायत आफिसर, पटियाला । 5. उपखंड आफिसर, राजपुरा । 6. उपखंड आफिसर, संगरूर ।

1

2

3

12	संगरूर	उपायुक्त, संगरूर	1. उपखंड आफिसर, संगरूर । 2. कार्यपालक मजिस्ट्रेट I, संगरूर । 3. उपखंड आफिसर, बरनाला । 4. उपखंड आफिसर, मालेरकोटला । 5. कार्यपालक मजिस्ट्रेट I, भटिंडा । 6. लोक शिकायत आफिसर, संगरूर ।
13	भटिंडा	उपायुक्त, भटिंडा	1. उपखंड आफिसर, भटिंडा । 2. साधारण सहायक, भटिंडा । 3. उपखंड आफिसर, फरीदकोट । 4. उपखंड आफिसर मनसा । 5. कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मानसा ।

[सं० 434/पंजाब/68

आदश द्वारा,

के० एस० राजगोपालन, सचिव ।

